



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 93 ]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2001/माघ 26, 1922

No. 93]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2001/MAGHA 26, 1922

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2001

का.आ. 135(अ).—केन्द्रीय सरकार, समपहत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्त) नियम, 1978 के नियम 11 के उप नियम (2) के साथ पठित तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ए. एम. प्रसाद को जो केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून के अधिकारी हैं, समपहत सम्पत्ति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. श्री ए. एम. प्रसाद, 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे।

[फा. सं. ए-15015/1/2000-सी. ए.]

डा. एम. सी. मेहनाथन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2001

S.O. 135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), read with sub-rule (2) of rule 11 of the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, the Central Government hereby appoints Shri A.M. Prasad, being an officer of the Central Government not below the rank of Joint Secretary to the Government as Member of Appellate Tribunal for Forfeited Property.

2. Shri A.M. Prasad shall hold office till he attains the age of sixty-two years or until further orders whichever is earlier.

[F. No. A-15015/1/2000-CA]

DR. M.C. MEHANATHAN, Dy. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2001

**का.आ. 136(अ).**—केन्द्रीय सरकार में, भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारी श्री ए. एम. प्रसाद को, जो भारत सरकार के विशेष सचिव और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली के महानिदेशक के रूप में तैनात हैं, आदेश फा. सं. ए. 15015/1/2000-सी. ए. तारीख 22 दिसम्बर, 2000 द्वारा समपद्धत संपत्ति अपील अधिकरण के सदस्य के रूप में, उक्त अधिकरण के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त किया है।

और श्री ए. एम. प्रसाद ने 29 दिसम्बर, 2000 के अपराह्न में उक्त अधिकरण के सदस्य का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68 ढ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिकरण के सदस्य के रूप में श्री ए. एम. प्रसाद की नियुक्ति को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ए-15015/1/2000-सी. ए.]

डा. एम. सी. मेहनाथन, उप सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2001

**S.O. 136(E).**—Whereas Central Government vide Order F. No. A-15015/1/2000-CA dated the 22nd December, 2000 appointed Shri A.M. Prasad, an officer of the Indian Customs and Central Excise Service and posted as Special Secretary to Government of India and Director General, Central Economic Intelligence Bureau, New Delhi as Member of Appellate Tribunal for Forfeited Property with effect from the date he takes over charge as Member of the said Tribunal

And whereas, Shri A.M. Prasad assumed charge of the office of the Member of said Tribunal in the afternoon of 29th day of December, 2000;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68N of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby notifies the appointment of Shri A. M. Prasad as Member of the aforesaid Tribunal.

[F. No. A-15015/1/2000-CA]

DR. M.C. MEHANATHAN, Dy. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2001

**का.आ. 137(अ).**—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68 ढ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 385 (अ) तारीख 29 मई, 1989 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (2) के सामने, "श्रीमती के. शुक्ला" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "श्री ए. एम. प्रसाद", शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-15015/1/2000-सी. ए.]

डा. एम. सी. मेहनाथन, उप सचिव

**टिप्पण :—**मूल अधिसूचना सं. का. आ. 385(अ), तारीख 29 मई, 1989, सा. का. नि. 713(अ), तारीख 16 अगस्त, 1990, का. आ. 47(अ), तारीख 22 जनवरी, 1991, सा. का. नि. 723(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 1991, का. आ. 191(अ), तारीख 8 फरवरी, 1994 और का. आ. 363 (अ), तारीख 21 मई, 1989 द्वारा संशोधित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2001

**S.O. 137(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68N of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. S.O. 385 (E), dated the 29th May, 1989, namely :—

In the said notification, against serial No. (2) for the letters and word "Smt. K. Shukla", the letters and word "Shri A.M. Prasad" shall be substituted.

[F. No. A-15015/1/2000-CA]

DR. M.C. MEHANATHAN, Dy. Secy.

**Note :—**The Principal notification No. S.O. 385(E), dated the 29th May, 1989 was amended by GSR 713(E), dated the 16th August, 1990, S.O. 47(E), dated the 22nd January, 1991, GSR 723(E), dated the 24th October, 1991, S.O. 191(E), dated 8th February, 1994 and S.O. 363(E), dated 21st May, 1989.